राजस्थान - संरकार शिक्षा - विभाग

## आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपूर

क्रमांक:-एफ1 ()स्था/आकाशि/20/690 प्राचार्य. समस्त राजकीय महाविद्यालय।

विनाकः। द्वीसतम्बर 2020

विषय:- चाईल्ड केयर अवकाश (CCL) स्वीकृति के संबंध में।

महोदय.

राजस्थान।

राज्य सरकार की वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमाक एफ 1(6)एफडी / सन्तर / 2011 दिनांक 22.05.2018 द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 103 (सी), वित्त विभाग की अविस्तृष्ट क्रमांक प.1(6)वित्त / नियम / 2011 दिनांक 10.09 2018 एवं वित्त विभाग की अधिस्चना क्रमांक एव 1(6)एफडी / रूल्स / 2011 दिनांक\_31.07.2020 द्वारा चाईल्ड केयर लीव का प्रावधान किया गठा है :

उक्त अधिसूचनाओं के क्रम में सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि महाविधालयों में चाईल्ड कंयर लीव संबंधी आवेदनों को वित्त विभाग के प्रपन्न संख्या-01,02 के अनुसार भरकर ही विभाग को आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

आयुक्त ,

कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर

दिनाकः।6सितम्बर २०२०

क्रमांक:-एफ1 ()स्था/आकाशि/20/690

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

2. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3)।

3. संयुक्त निदेशक प्रशासन/अकादमी/आयोजना/आरवीआरइएस/निजी संस्थाएं आयुक्तालय क्लेनेज

समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।

5. प्रभारी विभाग की वेबसाइक प्राप्त6. स्थापना शाखा / रक्षि स्थापना / रक्ष स्थापना / रक्ष स्थापना / रक्षि स् आदेश अपलोड करें।

सरदारशहर ( चूरू ) राज.

Verified

संयुक्त निदेशक (HRD) कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

## APPLICATION FOR CHILD CARE LEAVE

|  | -                                      |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| 1. Name of the Applicant   | :                                      |                                 |
| 2. Designation   | _:                                     |                                 |
| 3. Dept/Office/Section   |  |                                 |
| 4. Detail of Child/Children  | :                                      | Name Date of birth              |
|  |  |                                 |
| 5. Name of Specially abled Child   |  |                                 |
| <ol> <li>Name of Child for whom Child Care<br/>leave is applied for</li> </ol>                 | :                                      |                                 |
| 7. Date of Birth of the Child  | 1:                                     |                                 |
| <ol> <li>Date on which child will be attaining<br/>age of 18 years.</li> </ol>                 | :                                      |                                 |
| Is the child among the two eldest     Children   | :                                      | Yes/No                          |
| <ol> <li>Period of Leave &amp; Number of Days<br/>Prefix/Suffix of holidays, it any</li> </ol> |  | Frem To Days                    |
| 11. Reason(s) for leave applied for  |  |                                 |
| 12 Total Child Care Leave availed till date  |  |                                 |
| <ol> <li>(a) Whether permission to leave station is required</li> </ol>                        | :                                      | Yes/No                          |
| (b) If Yes, Address during leave period  | ;                                      | Yes/No                          |
| 14. Date of return from last leave,<br>& nature and period of that leave                       | :                                      |                                 |
| Date:  |  |                                 |
| के के स्टालिय<br>भ   | Signature of applicant Empolyce ID No. |                                 |
| Leave Sanction   | nin                                    | ng Authority                    |
| temarks of Controlling Officer Leave Recor   | nm                                     | nended / Leave Not Recommended. |
| Date : Signature   |  |                                 |
| Designation Office   |  |                                 |

Bal

Verified

प्राच्याची राजकीय महाविद्यालय सरदारशहर (क्त)राज.

## Proforma for maintaining Child Care Leave Account

| Period of Child Care<br>Leave Taken |     |               | Balance of Chil | Signature and designation the  |                    |
|-------------------------------------|-----|---------------|-----------------|--|--------------------|
| From                                | To  | Total<br>Days | Balance         | Date   | certifying officer |
| (1)                                 | (2) | (3)           | (4)             | (5)  | (6)                |
|                                     |     |               |                 |  |                    |
| 1                                   |     |               | -               |  |                    |
|                                     |     | -             |                 |  |                    |
|                                     | 7   |               |                 |  |                    |
|                                     |     | -             |                 |  |                    |
|                                     |     |               |                 |  |                    |
|                                     |     |               |                 |  |                    |
|                                     |     |               |                 |  |                    |
|                                     |     |               |                 |  |                    |
|                                     |     |               |                 |  |                    |
|                                     |     |               |                 |  |                    |
|                                     |     | -             |                 | annual consumption of the second seco |                    |
|                                     |     |               |                 | and a second sec |                    |
|                                     |     | -             |                 |  |                    |
|                                     |     |               |                 |  |                    |
|                                     |     |               |                 |  |                    |
|                                     |     |               |                 |  |                    |
|                                     |     |               |                 |  |                    |
|                                     |     | -             |                 |  |                    |
|                                     |     |               |                 |  |                    |
|                                     |     |               |                 |  |                    |
|                                     |     |               | -               |  |                    |
|                                     |     | 1+            |                 |  |                    |
|                                     |     | +             |                 |  |                    |
|                                     |     |               |                 |  |                    |
|                                     |     |               |                 |  |                    |
| ,                                   |     |               |                 |  |                    |

Bal



Verified

प्राचार्य राजकीय महाविद्यालः सरदारशहर (चूरू ) राज